



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 18]

नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2015, शनिवार/ज्येष्ठ 24—ज्येष्ठ 30, 1937

No. 18]

NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2015, SATURDAY/JYAISTHA 24—JYAISTHA 30, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2015

आ.अ. 45.—यतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012 के लिए जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तंभ (4) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है:-

## सारणी

क्रम सं	निर्वाचन का विवरण संख्या और नाम	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम नाम व पता	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	2-भरमौर (अ.ज.जा.)	श्री मदन लाल बरयाल, पुत्र श्री काला राम, गांव - गोसन, डा. व तहसील-भरमौर, हि. प्र. ।	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	-वही-	5-भटियात	श्री सुशील कुमार धीमान, गांव - मलाडा, डाकघर - सिहुन्ता, उप तहसील - सिहुन्ता, जिला - चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
3.	-वही-	6-नूरपुर	श्री साली राम, गांव - कदरोह, डाकघर - खैरिया, तहसील - नूरपुर, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
4.	-वही-	8-फतेहपुर	श्री पवन सिंह, गांव - स्थेरा, डाकघर - गोलवां, तहसील - नूरपुर, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
5.	-वही-	10-देहरा	श्री हरिओम, गांव व डाकघर-भटोली फकोरियां, तहसील-देहरा जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
6.	-वही-	-वही-	श्री सतीश कुमार, गांव व डाकघर-मशरूर तहसील-देहरा जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
7.	-वही-	-वही-	श्री राज कुमार, गांव - भगीन, डाकघर-चुधरेड़, तहसील-देहरा जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	10-देहरा	श्रीमती सुषमा देवी, गांव व डाकघर-अमलेला, तहसील - ज्वाली, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
9.	-वही-	-वही-	श्री अश्वनी कुमार, गांव - चपलाह व डाकघर-चनौर, तहसील-देहरा जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
10.	-वही-	-वही-	श्री हरपाल सिंह जसवाल, गांव व डाकघर-वरवाड़ा, तहसील-देहरा जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा निर्धारित रीति से दाखिल नहीं किया
11.	-वही-	11-जसवां परागपुर	श्री दिनेश कुमार, गांव व डाकघर-गुरनवाड़ तहसील - जसवां जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
12.	-वही-	12-ज्वालामुखी	डा. मधु गुप्ता, गांव व डाकघर-ज्वालामुखी, तहसील - ज्वालामुखी जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
13.	-वही-	13-जयसिंहपुर ( अ.जा. )	श्री दिनेश कुमार, गांव - खालटा व डाकघर - संघोल, तहसील - जयसिंहपुर जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
14.	-वही-	-वही-	श्री जितेन्द्र कुमार, गांव - मानिआडा ( कस्बा- जुगेहड ) व डाकघर - पाहड़ा, तहसील - पालमपुर जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	14-सुलह	श्री संजय कुमार, गांव - मनसिम्बल उपरला, डाकघर - मनसिम्बल तहसील - पालमपुर जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
16.	-वही-	17-शाहपुर	श्री विपन कुमार, गांव - बण्डी, डाकघर - नागनपट्ट, तहसील - धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
17.	-वही-	-वही-	श्री कुशल कुमार, गांव/डाकघर व तहसील - शाहपुर, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
18.	-वही-	18-धर्मशाला	श्री बलराज शर्मा, गांव व डाकघर-दाड़ी, तहसील - धर्मशाला जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
19.	-वही-	19-पालमपुर	श्री सुनील कुमार, गांव - आइमा, डाकघर व तहसील-पालमपुर जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
20.	-वही-	-वही-	श्री नरेन्द्र जम्वाल, गांव - घुग्गर टांडा, डाकघर - पालमपुर जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
21.	-वही-	20-बैजनाथ (अ.जा.)	श्री विजय कुमार, गांव व डाकघर-पपरोला, तहसील - बैजनाथ, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	20-बैजनाथ (अ.जा.)	श्री शशी पाल, गांव व डाकघर- भिरडी, तहसील - बैजनाथ, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
23.	-वही-	-वही-	श्री ओम प्रकाश, महाल- कोटली, डाकघर - गुनेहड़, तहसील - बैजनाथ, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
24.	-वही-	29-नाचन (अ.जा.)	श्री रोशन लाल ठुकराल, गांव - भौर, डाकघर - कनैड, तहसील - सुन्दर नगर, जिला - मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
25.	-वही-	-वही-	श्रीमती बिमला देवी, गांव - बणी, डाकघर व तहसील-चच्योट, जिला - मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
26.	-वही-	39-बड़सर	श्री सतीश कुमार, गांव - तुखानी, डाकघर - बणी, तहसील- बड़सर जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
27.	-वही-	-वही-	श्री प्रकाश चंद, गांव - पपलोहल ब्राह्मणां, डाकघर - दंदवी, तहसील- बड़सर जिला - हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
28.	-वही-	48-बिलासपुर	श्री कुशल शर्मा, मकान नं. 22, रौड़ा सैक्टर-3, बिलासपुर जिला - बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012	62-कसुम्पटी	श्री धर्मपाल शर्मा, वोडाफोन बिल्डिंग, एस.डी.ए. काम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
30.	-वही-	65-जुब्बल-कोटखाई	श्री लोकिन्द्र चौहान, गांव व डाकघर-मढोल, तहसील- जुब्बल जिला - शिमला, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया
31.	-वही-	67-रोहडू ( अ.जा. )	श्री बदरी प्रसाद, गांव व डाकघर-डोडरा, तहसील- डोडरा क्वार, जिला - शिमला, हिमाचल प्रदेश ।	लेखा दाखिल नहीं किया

[सं. 76/हि. प्र.-वि.स./2012]

आदेश से,  
शंगारा राम, वरिष्ठ प्रधान सचिव**ELECTION COMMISSION OF INDIA****ORDER**

New Delhi, the 8th June, 2015

**O. N. 45.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly in Himachal Pradesh, 2012 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2012	2-Bharmour (ST)	Sh. Madan Lal Baryal S/o Kala Ram, Village- Gosan, P.O. and Tehsil- Bharmour, Distt.- Chamba Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to the Legislative Assembly, 2012	5-Bhattiyat	Sh. Sushil Kumar Dhiman, Village-Malara, P.O.- Sihunta Sub-Tehsil- Sihunta Distt. - Chamba, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
3.	-do-	6-Nurpur	Sh. Sali Ram, Village-Kadroh, P.O.- Kherian Tehsil - Nurpur Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
4.	-do-	8-Fatehpur	Sh. Pawan Singh, Village - Sathera, P.O. - Golwan, Tehsil - Nurpur Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
5.	-do-	10-Dehra	Sh. Hari Om, Village and P.O.- Bhatoli Fakorian, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
6.	-do-	10-Dehra	Sh. Satish Kumar, V.P.O.- Mashroor, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
7.	-do-	10-Dehra	Sh. Raj Kumar, Village - Bhageen, P.O. - Chudrehar, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
8.	-do-	10-Dehra	Smt. Sushma Devi, V.P.O.- Amlela, Tehsil - Jawali, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
9.	-do-	10-Dehra	Sh. Ashwani Kumar, Village - Chaplah, P.O. - Chanour, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	General Election to the Legislative Assembly, 2012	10-Dehra	Sh. Harpal Singh Jaswal, V.P.O. - Barwara, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses manner required by law.
11.	-do-	11-Jaswan Pragpur	Sh. Dinesh Kumar, V.P.O. - Guranwar, Tehsil - Jaswan, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
12.	-do-	12-Jawalamukhi	Dr. Madhu Gupta, V.P.O. - Jawalamukhi, Tehsil - Jawalamukhi, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
13.	-do-	13-Jaisinghpur (SC)	Sh. Dinesh Kumar, Village - Khalta, P.O. - Sanghole, Tehsil - Jaisinghpur, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
14.	-do-	13-Jaisinghpur (SC)	Sh. Jitender Kumar, Village - Manira (Kasba Jugehr), P.O. - Phara, Tehsil - Palampur, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
15.	-do-	14-Sullah	Sh. Sanjay Kumar, Village-Upper Mansimbal P.O. - Mansimbal, Tehsil - Palampur, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
16.	-do-	17-Sahpur	Sh. Vipin Kumar, Village - Bandi P.O. - Naganpatt, Tehsil - Dharamshala, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
17.	-do-	17-Sahpur	Sh. Kushal Kumar, V.P.O. & Tehsil - Shahpur, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	General Election to the Legislative Assembly, 2012	18-Dharamshala	Sh. Balraj Sharma, V. P.O. - Dari Tehsil - Dharamshala Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
19.	-do-	19-Palampur	Sh. Sunil Kumar, Village - Aima, P.O. & Tehsil-Palampur Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
20.	-do-	19-Palampur	Sh. Narender Jamwal, Village - Ghuggar Tanda, P.O. - Palampur Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
21.	-do-	20-Baijnath (SC)	Sh. Vijay Kumar, V.P.O. - Paprola Tehsil - Baijnath Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
22.	-do-	20-Baijnath (SC)	Sh. Shashi Pal, V.P.O. - Birdi, Tehsil - Baijnath Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
23.	-do-	20-Baijnath (SC)	Sh. Om Prakash, Mahal Kotli, P.O. - Gunehar, Tehsil - Baijnath Distt. - Kangra, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
24.	-do-	28-Nachan (SC)	Sh. Roshan Lal Thakural, Village - Bhour, P.O. - Kanaid, Tehsil - Sunder Nagar, Distt. - Mandi, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
25.	-do-	28-Nachan (SC)	Sh. Bimla Devi, Village - Banni, P.O. & Tehsil -Chachiot, Distt. - Mandi, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	General Election to the Legislative Assembly, 2012	39-Barsar	Sh. Satish Kumar, Village - Tukhani, P.O. - Bani, Tehsil - Barsar, Distt. - Hamirpur, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
27.	-do-	-do-	Sh. Parkash Chand, Village - Paplohal Brahamma, P.O.- Dundwin, Tehsil - Barsar, Distt. - Hamirpur, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses manner required by law.
28.	-do-	48-Bilaspur	Sh. Kushal Sharma, H. No. 22, Roura Sector-3, Bilaspur, Distt. - Bilaspur, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
29.	-do-	62-Kasumpti AC	Sh. Dharam Pal Sharma, Vodafone Building, S.D.A. Complex, Kasumpti, Shimla - 9	Failure to lodge account of election expenses.
30.	-do-	65-Jubbal Kotkhai AC	Sh. Lokinder Chauhan, V.P.O. - Mandhola, Tehsil - Jubbal, Distt. - Shimla, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.
31.	-do-	67-Rohru (SC) AC	Sh. Badri Prasad, V.P.O. - Dodra, Tehsil - Dodra Kavar, Distt. - Shimla, Himachal Pradesh.	Failure to lodge account of election expenses.

[No. 76/HP-LA/2012]

By Order,  
SHANGARA RAM, Senior Principal Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

**आ.अ. 46.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्द्वारा, श्रीमति सलीना सिंह, आई. ए. एस. (एम.पी : 1986), उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है ।

2. श्रीमति सलीना सिंह, आई. ए. एस. (एम.पी : 1986), मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे ।

3. श्रीमति सलीना सिंह, आई. ए. एस. (एम.पी : 1986), मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा ।

[सं. 154/म.प्र./2015-नि. यो. अ.]

आदेश से,

सुमित मुखर्जी, सचिव

New Delhi, the 18th June, 2015

**O. N. 46.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, hereby nominates Smt. Saleena Singh, IAS (MP: 1986) as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh with effect from the date she takes over charge and until further orders.

2. Smt. Saleena Singh, (MP: 1986) IAS shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any work under the Government of Madhya Pradesh, which She may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Saleena Singh, (MP: 1986) IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh, except that She should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/MP/2015-EPS]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Secy.